

September 9, 2021

Listing Compliance Department National Stock Exchange of India Limited. Exchange Plaza, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai 400051

Fax: 022-26598235/36

**NSE Symbol: VIKASLIFE** 

Listing Compliance Department BSE Limited. Phirozee Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001

Scrip Code: 542655

Sub: <u>Intimation regarding completion of dispatch of Notice of 27<sup>th</sup> AGM and submission of Newspaper Advertisement made in this regard</u>

Dear Sir/ Madam,

Pursuant to Regulation 30 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015, we wish to inform you that the Notice calling 27th Annual General Meeting ("AGM") of the Company has been dispatched through NDSL by e-mail on Thursday, September 8, 2022 to all the Members of the Company whose name appeared in the Register of Members as on Friday, September 02, 2022.

Further Pursuant to Regulation 47 of SEBI Listing Regulation, please find enclosed herewith copies of the newspaper advertisement published in Financial Express (English newspaper) and Jansatta (Regional newspaper) on Friday, September 9, 2022 intimating the Members that the 27th AGM of the Company is scheduled to be held on Thursday, September 29, 2022 at 11.30 A.M. (IST) through VC/OAVM.

The Annual Report along with the Notice of the AGM for the Financial Year 2021-22 is also available on the website of the Company i.e. www.vikaslifecarelimited.com.

We request you to kindly take the above information on record and oblige.

Thanking you,

Yours Faithfully, for Vikas Lifecare Limited (formerly Vikas Multicorp Limited)

Parul Rai Company Secretary

#### Act, 2002 (the said Act.) read with Rule 3(1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 (the said Rules). I exercise of powers conferred under Section 13(12) of the said Act read with Rule 3 of the said Rules, the Authorised Officer of IIFL Home Finance Ltd. (IIFL HFL) (Formerly known as India Infoline Housing Finance Ltd.) has issued Demand Notices under section 13(2) of the said Act, calling upon the Borrower(s), to repay the amount mentioned in the respective Demand Notice(s) issued to them. In connection with above, notice is hereby given, once again, to the Borrower(s) to pay within 60 days from the publication of this notice, the amounts indicated herein below together with further interest from the date(s) of Demand Notice till the date of payment. The detail of the Borrower(s) amount due as on date of Demand Notice and security offered towards repayment of loan amount are as under:

DEMAND NOTICE

Description of secured asset Name of the Borrower(s)/ **Demand Notice Date** & Amount (immovable property) Guarantor (s) Mr. Ganga Ram All that piece and parcel of the property bei 05-Sep-2022 & Mrs.Ruchi, Ganga House On Plot No 24, A Khasra No. 160 K & 16 Rs.20,50,252.00/-Kumar Kashyap K .Area Admeasuring 90 Sq.Yards.Shri Radha (Rupees Twenty Lakh Fifty Thousand Krashna Dham Mauza Sikandra Bahistabad (Prospect No Two Hundred Fifty Two Only ) IL10124792) Agra, Agra, Uttar Pradesh, India, 282007. 02-Sep-2022 & Rs.9,30,851/- All that piece and parcel of the property being Mr. Brijesh Kumar (Rupees Nine Lakh Thirty Thousand : Flat No.- A-166-32, 3rd Floor, Sector-4A, havin Mishra, Mrs. Tiwari Eight Hundred Fifty One Only) for Sushila Kumari

IL10042137 & Rs.92,137/- (Rupees Built up area admeasuring 361 Sq. Ft., Mandol rospect No IL10042137 Ninety Two Thousand One Hundred Vihar, Ghaziabad, Uttar Pradesh. India. 201001 and IL10076208) Thirty Seven Only) for IL10076208 All that piece and parcel of the property being: Uppe Mr. Kundan Kumar 01 - Sep - 2022 Ground Floor, Back Side Right Hand Side without roo Mrs.Nirmala Devi Rs.20,09,878.00/rights, out of property No. I-59, area admeasuring 540 Mr. Ramprawesh Kumar (Rupees Twenty Lakh Nine Sq. Ft., falling under Khasra No. 432, and 433, Situated in the area of Village Nawada Mazra Hastsal, and the Thousand Eight Hundred (Prospect No

Colony known as in Block I, Gali No. 4, Mohan Garder Seventy Eight Only) IL10041843) ,Uttam Nagar Delhi, West Delhi, Delhi, India, 110059. 1-Sep-2022 & 943592 is All that piece and parcel of the property being Mr. Rakesh Rs.50,54,208 /- (Rupees Fifty Lakh Fifty Plot No.-417, Block-Q, Measuring 60 Sq.Yds. Mrs.Kanta Devi M/S Rakesh
Mrs.Manju (Prospect No 943592 & 944391)

Four Thousand Two Hundred Eight Only ) & 944391 is Rs.1,12,525 /- (Rupees One Lakh Twelve Thousand Sukhrali, Gurgaon, 122001, Haryana, India. Five Hundred Twenty Five Only) 01-Sep-2022 & Rs.1,52,517/- (Rupees All that piece and parcel of the proper Mr. Shubham Aggarwal One Lakh Fifty Two Thousand Five being : Flat No- D-2629, admeasuring 1115 Sq Mrs.Neeta Agarwal Hundred Seventeen Only) for 855646 & Ft., Block-D, 25Th Floor , 16Th, Park View (Prospect No 855646 & Rs.19,51,116/- (Nineteen Lakh Fifty Gaur Yamuna City, Greater Noida, Noida, Uttar IL10024908) Pradesh, India, 201301. for **IL10024908** 05 - Sep - 2022 All that piece and parcel of the property being Mr. Deepak Sharma

Flat No.T6-176, 17Th Floor, Area Admeasurin

997 Sg.Ft. Super Built-Up, Tower T6 Kvd

Windpark, Greater Noida, Noida 2, 201308

Total Outstanding Dues (Rs.)

National Capital Region, India

f the said Borrowers fail to make payment to HFL HFL as aforesaid, HFL HFL may proceed against the above secure assets under Section 13(4) of the said Act, and the applicable Rules, entirely at the risks, costs and consequences o the Borrowers. For, further details please contact to Authorised Officer at IIFL House, India Infoline Housing Finance Ltd., Plot No.30/30E, Upper Ground Floor, Main Shivaji Marg, Najafgarh Road, Beside Jaguar Showroom, Moti Nagar,/Corporate Office: IIFL Tower, Plot No. 98, Udyog Vihar, Ph-IV Gurgaon, Haryana. Place:Delhi, Date:09-09-2022 Sd/- Authorised Officer, For IIFL Home Finance Ltd.

Rs.32,51,698.00/-

(Rupees Thirty Two Lakh

Ninety Eight Only )

Name of the Borrower(s)/ Description of the Secured

Fifty One Thousand Six Hundred

Mrs.Sheetal Sharma

**Sheetal Telecom** 

(Prospect No 762615)

#### Possession Notice (For Immovable Property) Rule 8-(1) Finance Ltd.) (IIFL-HFL) under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act

2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, a Demand Notice was issued by the Authorised Officer of the company to the Borrower/Co-Borrowers mentioned herein below to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Section 13(4) of the said Rules. The borrower in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of IIFL HFL for an amount as mentioned herein under with interest thereon. "The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, If the borrower clears the dues of the "IIFL HFL" together with all costs, charges and expenses incurred, at any time before the date fixed for sale or transfer, the secured assets shall not be sold or transferred by "IIFL HFL" and no further step shall be taken by "IIFL HFL" for transfer or sale of the secured assets.

Mr. Atul Bose A B Cyber Space Mrs. Chandana Bose	All that piece and parcel of: Private Plot No.8-A P Block, Area Admeasuring 110 Sq.yards.	Notice 25-Jun- 2022	Possession 06-Sep- 2022	
Mr. T K Bose (Prospect No.833110 & 948889)	Yashoda Nagar, Kanpur Nagar- 208011, Uttar Pradesh, India.	Rs.3,98,038/- (Rupees Three Lakh Ninety Eight Thousand Thirty Eight Only)		2022
Mrs. Mamta Rani Sagun Construction (Prospect No.875649)	I that piece and parcel of: House uilt on Plot No.110 and 111, dmeasuring 1000 sq.ft., Minjumla, hasra No.24 and 26/1 Balakganj, ard Balakganj, Lucknow-26009, Uttar Pradesh, India.	(Rupees Twenty Seven Lakh Seventy Five Thousand Two Hundred Fifty Nine Only)	22-Jun- 2022	06-Sep- 2022
		Office: 1017, Tenth Floor, Cyber Heights,		

|Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010 / or **Corporate Office:** Plot No.98, Phase-IV, Udyog Vihar, Gurgaon, Haryana. Place: Lucknow, Date: 08.09.2022 Sd/- Authorised Officer, For IIFL Home Finance Ltd.

# ALLIANCE INTEGRATED METALIKS LIMITED

CIN: L65993DL1989PLC035409

Reg. Off.: 5th Floor, Unit No. 506, Building No. 57, Manjusha Building, Nehru Place, New Delhi - 110019 | Tel. No.: 011-40517610 E-mail: alliance.intqd@rediffmail.com | Website: www.aiml.in

## NOTICE OF 33RD ANNUAL GENERAL MEETING.

E VOTING AND BOOK CLOSURE Notice is hereby given to the Members of Alliance Integrated Metaliks Limited ("Company") that the

33rd Annual General Meeting (AGM) of the Company is scheduled to be held on Thursday 29th September, 2022 at 12.30 p.m. (IST) through Video Conferencing/Other Audio Visual Means (OAVM) in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, read with General circular dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020, January 13, 2021, December 14, 2021 and May 05, 2022 and various other circulars related thereto (collectively referred to as "MCA Circulars") and Circular No. SEBI/HO/CFD/ CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021and Circular no. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 issued by the Securities and Exchange Board of India ("the SEBI Circulars"), to transact the business as set out in the notice of AGM.

In compliance with the above circulars, the electronic copies of Notice of the AGM alonwith the Annual Report for the Financial Year 2021-22 have been sent to shareholders whose name appear in the register of members as at the closing hours of business on Friday, 02nd September, 2022and whose email address are registered with the depository participants and with the Company or M/s. Beetal Financial & Computer Services (P) Limited, Registrars & Share Transfer Agent, the emailing of the said documents has been completed on Wednesday, 07th September, 2022.

Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 ("Act") read with relevant applicable rules, as amended and Regulation 42 of Securities And Exchange Board Of India (Listing Obligations And Disclosure Requirements) Regulations, 2015 notice is also given that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 23rd September 2022 to 29th September 2022 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

Further pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 ('the Act') read with, Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014 as amended and substituted by Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 and Regulation 44 of Securities And Exchange Board Of India (Listing Obligations And Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide members facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be passed at the 33rdAnnual General Meeting (AGM) by electronic means ('remote e-voting'). The facility for online voting through electronic means shall also be made available at the AGM and Members who have already cast their votes through electronic mode during the schedule voting period prior to the date of the meeting will not be entitled for online voting as on the date of the AGM. Members participating through the VC / OAVM shall be reckoned for the purpose of guorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. The Company has engaged the services of Central Depository Services (India) Limited (hereinafter referred as "CDSL") as agency to provide remote e-voting facility. The details pursuant to the provisions of the Act and Rules are given

- The remote e-voting period commences on 26th September, 2022 and ends on 28th September, 2022. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.
- Members of the Company holding shares either in physical form or in dematerialized form, along with person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the Depositories as on the cut-off date of 22nd September, 2022 shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM through electronic means.
- Any Person who have acquired shares and became member after the dispatch of the Notice of the AGM but before the 'Cut-off Date' may obtain their user ID and Password for e-voting from the Company's Registrars & Share Transfer Agent, M/s. Beetal Financial & Computer Services (P) Limited, Beetal House, 3rd Floor, 99 Madangir, Behind Local Shopping Center, Near Dada Harsukhdas Mandir, New Delhi-110062, Tel: 011-29961281-83 Email: investor@beetalfinancial.com. However, if the member is already registered with CDSL for remote e-voting then he/she can use his/her exiting user ID and password for casting the vote through e-voting.
- Further the board of Directors of the Company has appointed Mr. Sachin Khurana, proprietor of M/s S Khurana & Associates, Company Secretaries (CP:13212) for scrutinizing the remote e-voting process as well as voting during the AGM in fair and Transparent Manner. The result of remote evoting and voting during the AGM shall be declared not later than 48 hours from the conclusion of the AGM. The declared results along with Scrutinizer's Report shall be place on the website of the Company at www.aiml.in and also the website of the Bombay Stock Exchange on which the shares of the Company are listed i.e. www.bseindia.com.
- Members who have not registered their email are requested to register the same in the respect of the shares held in electronic form with the Depository through their Depository Participants and in respect of the shares held in physical form be written to Company's Registrars & Share Transfer Agent, M/s. Beetal Financial & Computer Services (P) Limited at investor@beetalfinancial.com.
- The Notice of AGM and the Annual Report 2021-22 is available at company's website at www.aiml.in and CDSL website www.evotingindia.com & also at BSE Website www.bseindia.com. For detailed instructions pertaining to remote e-voting, Members may refer in the section 'Notes' in
- Notice of the 33rd AGM. 8. Members who have cast their votes by remote e-voting prior to the meeting may also join in the
- cast their vote again through online voting. 9. If you have any queries or issues regarding E-Voting you can write an email to

meeting through Video Conferencing/Other Audio Visual Means (OAVM) but shall not be entitled to

helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 022-23058738 and 022-23058542/43. Members are requested to carefully read all the notes set out in the Notice of the AGM and in particular,

instructions for joining the AGM, the manner of the casting vote through Remote e-voting or through evoting during the AGM. For Alliance Integrated Metaliks Limited

Date: 08/09/2022

financialexp.epapr.in

Place: New Delhi

Daljit Singh Chahal

Chairman Cum Wholetime Director DIN: 03331560 SAI INDUSTRIES LIMITED CIN: L74999DL1991PLC045678

Regd Off: 302, 3rd Floor, C-2/4, Community Centre Ashok Vihar, phase-2 New Delhi 110052 IN

NOTICE is hereby given that the 31"Annual General Meeting (AGM) of the members of Sai Industries Limited will be held on Friday, 30"September, 2022 at 4:00P.M. (IST) at 367, Kohat Enclave, Pitampura, and Delhi-110034, to transact the business as set out in the Notice of the AGM. The Company has sent the Notice of the 31 AGM along with the Annual Report 2021-22through electronic mode only to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company or Registrar & Transfer Agent and Depositories. The requirement of sending physical copies of the Notice of the AGM has been dispensed with vide MCA Circulars and the SEBI Circular. The Annual Report 2021-22 of the Company, inter alia, containing the Notice and the Explanatory Statement of the 31"AGM is available on the website of the Stock Exchanges. A copy of the same is also available on the website of National Securities Depository Limited

capital of the Company as on 23"September, 2022 ('Cut-Off Date'). Any person who acquires shares and becomes a Member after the dispatch of the Notice and holds shares as on Cut-Off Date, may obtain the login-id and password for remote e-Voting by sending a request at evoting@nsdl.co.inor may contact on toll free number 1800-222-990, as provided by NSDL

**Book Closure:** 

Notice is further given that pursuant to Section 91 of the Act and the Rules framed thereunder, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from 23"September, 2022to 30"September, 2022 (both days inclusive) for the purpose of 31"AGM.

e-mail addresses are requested to send request to company on sindustri693@gmail.comalong with email addresses and scanned copy of PAN to receive the Notice of the AGM and Annual Report 2021-22 electronically and to receive login ID and password for remote e-Voting.

Date: 01.09.2022 Place : Delhi

JDS FINANCE COMPANY LIMITED

CIN: L65999DL1984PLC018035

Regd Off: 500, 5th Floor, ITL Twin Tower, Netaji Subhash Place,

Pitampura, Delhi North Delhi DL 110034 IN

Email: info@jdsfinance.in

NOTICE OF 38"AGM, E-VOTING & BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the 38°Annual General Meeting (AGM) of the

members of JDS Finance Company Limited will be held on Friday,

30"September, 2022 at 2:30 P.M. (IST) at 367, Kohat Enclave, Pitampura,

and Delhi-110034, to transact the business as set out in the Notice of the

AGM. The Company has sent the Notice of the 38"AGM along with the

Annual Report 2021-22through electronic mode only to those Members

whose e-mail addresses are registered with the Company or Registrar &

Transfer Agent and Depositories. The requirement of sending physical

copies of the Notice of the AGM has been dispensed with vide MCA

Circulars and the SEBI Circular. The Annual Report 2021-22 of the

Company, inter alia, containing the Notice and the Explanatory Statement

of the 38 AGM is available on the website of the Stock Exchanges. A copy

of the same is also available on the website of National Securities

In compliance with relevant provisions of Section 108 of the Companies

Act, 2013read with relevant rules and other applicable provisions, the

Company is providing the facility of remote e-Voting before as well as

during the AGM in respect of the business to be transacted at the AGM

through NSDL, detailed instructions are given in the Notice of the AGM.

The remote e-voting shall commence on 26" September, 2022 at 9AM and

end on 29" September, 2022at 5 PM. The remote e-Voting module shall be

disabled by NSDL for voting thereafter and Members will not be allowed to

vote electronically beyond the said date and time. The voting rights of the

Members shall be in proportion to their share of the paid-up equity share

capital of the Company as on 23"September, 2022 ('Cut-Off Date'), Any

person who acquires shares and becomes a Member after the dispatch of

he Notice and holds shares as on Cut-Off Date, may obtain the login-id

ind password for remote e-Voting by sending a request at

voting@nsdl.co.inor may contact on toll free number 1800-222-990, as

Notice is further given that pursuant to Section 91 of the Act and the Rules

ramed thereunder, the Register of Members and the Share Transfer

Books of the Company will remain closed from 23"September, 2022to

Members (Physical and demat holders) who have not yet registered their

e-mail addresses are requested to send request to company on

nfo@jdsfinance.in. along with email addresses and scanned copy of PAN

o receive the Notice of the AGM and Annual Report 2021-22 electronically

and to receive login ID and password for remote e-Voting

29"September, 2022 (both days inclusive) for the purpose of 38"AGM.

Depository Limited ('NSDL') at www.evoting.nsdl.com.

provided by NSDL

Date: 08.09.2022

Place: Delhi

Registration of e-mail addresses:

Book Closure:

G G ENGINEERING LIMITED

CIN: L28900MH2006PLC159174

Registered Office: Office No. 203,2nd Floor, Shivam Chambers Coop Soc Ltd.

S.V Road, Goregaon West, Near Sahara Apartment Mumbai-400104 IN

Email: cs.ggengg@gmail.com | Website: www.ggengg.in

NOTICE OF 16th ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 16th Annual General Meeting ("AGM") of the members of

the Company will be held on Friday, September 30, 2022 at 11:30 A.M. through Video

Conferencing/ Other Audio Visual Means (VC/OAVM) facility, in compliance with the

rovisions of the Companies Act, 2013 (the 'Act'), General Circular No. 14/2020, 17/2020

0/2020 followed by General Circular No. 02/2021 and all other applicable laws and

irculars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and Securities and Exchange

Board of India ("SEBI") circular dated 12 May 2020 and 15 January 2021, to transact the

Pursuant to the said Circulars, the Company has sent the Notice of 16th AGM along with the Annual Report for the Financial Year 2021-22 on Wednesday, September 7, 2021

rough electronic mode to all the members whose email IDs are registered with the

ompany/depository participant(s). These documents are also available on the

company's website at www.ggengg.in and on the website of Stock Exchange i.e. BSE

Also, in compliance with Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the

SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Registe

of Members will remain closed from Saturday, 24th September, 2022 to Friday, 30th

irsuant to provisions of section 108 of the Act and rule 20 of the Companie

Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and SEBI circular

lated 9 December, 2020, members holding shares in physical or dematerialized form, as

in the cut-off date, i.e., September 23, 2022, may cast their vote electronically on the

The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means in the

The remote E-voting period will commence from Tuesday, 27th September, 2022 a

9:00 A.M. (IST) and will end on Thursday, 29th September, 2022 at 5:00 P.M. (IST)

The persons who have acquired shares and have become member of the Company

after the dispatch of notice may obtain the login ID and password from Nationa

Securities Depository Limited (NSDL) on the help desk No. 1800 1020 990 / 1800

A person whose name is recorded in the Register of Members or in the register of

beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall

be entitled to avail the facility of remote E-voting as well as voting in the general

Members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may also

attend/participate in the AGM through VC/OAVM facility, but shall not be allowed

The manner of registration of email addresses of those members whose email

addresses are not registered with the Company/RTA/DP is available in the AGM

By Order of the Board

Meghna Kashtwal

ousiness as set out in the Notice of 16th AGM through e-voting platform. The detailed

procedure/instructions for e-voting are contained in the Notice of 16th AGM.

Remote E-voting shall not be allowed beyond the aforesaid period.

n this regard, the members are hereby further notified that:

22 44 30 or send an e-mail to evoting@nsdl.co.in

to cast their votes again at the AGM.

general meeting is Friday, September 23, 2022

Management and Administration) Rules, 2014, as amended, Regulation 44 of the SEB

mited at www.bseindia.com and on NSDL's website at www.evoting.nsdl.com

businesses as set out in the Notice of 16th AGM.

September, 2022 (both days inclusive).

#### **RELIANCE**

NOTICE

(for the attention of Equity Shareholders of the Company) Sub. : Transfer of Equity Shares and Dividend of the Company to Investor **Education and Protection Fund Authority** 

Act, 2013 and the Investor Education and Protection Fund (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 (the Rules), as amended from time to time, all the share(s) i respect of which dividend has not been paid or claimed for seven consecutive years and the dividend declared for Financial Year 2014-15, which remains unpaid or unclaimed for a period of seven years shall be liable to be transferred to Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority, on or after November 6, 2022.

on its website shall be deemed to be adequate notice for the purpose of transfer of shares to IEPF Authority pursuant to the Rules.

In case shares along with dividend are transferred to IEPF-

a. For shares held in Physical Form: New share certificate(s) will be issued and transferred

Shareholders may note that both, the unclaimed dividend and the equity share(s) transferred back by them from IEPF Authority after following the procedure prescribed in the Rules.

stated above, on or before November 1, 2022, failing which the same shall be transferred to the IEPF Authority without any further notice. For any queries on the above matter, shareholders are requested to contact the

Registered and Transfer Agent at Selenium Building, Tower-B, Plot No. 31 & 32, Survey No. 116/22, 115/24, 115/25, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad 500032; Tel.:+91 40 6716 1500 Fax: +91 40 6716 1791, Toll Free No.(India): 1800 309 4001, Email: rinfra@kfintech.com

For Reliance Infrastructure Limited

Place : Mumbai Date: September 9, 2022 By order of the Board

Anil Kumar Jain

DIN NO. 00014601

Director

Reliance Infrastructure Limited

CIN: L75100MH1929PLC001530

Regd. Office: Reliance Centre, Ground Floor, 19, Walchand Hirachand Marg, Ballard Estate, Mumbai 400 001

Tel.: +91 22 4303 1000, Fax: +91 22 4303 4662

E-mail: rinfra.investor@relianceada.com, Website: www.rinfra.com

## INDIA FINSEC LIMITED

REGD. OFF.: D-16, First Floor, Above ICICI Bank, Prashant Vihar, Sector-14. Rohini, Delhi-110085 CIN: L65923DL1994PLC060827, PH NO- 011-47096097

E-MAIL- indiafinsec@gmail.com, Website- www.indiafinsec.com NOTICE OF 28TH ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING

PROCEDURES & INTIMATION OF BOOK CLOSURE NOTICE is hereby given that the 28th Annual General Meeting of the

Members of India Finsec Limited will be held on Friday, 30th day of September, 2022 at 09:30 A.M. at D-16, First Floor, Prashant Vihar Sector-14, Rohini, New Delhi-110085 to transact the business (es) as mentioned in the notice of AGM which is being circulated for convening he AGM. The Company has sent the notice of AGM along with the Annual Report for Financial Year 2021-22 through electronic mode o the members whose email addresses are registered with the Company/Depositories. The Annual Report for Financial Year 2021-22 s available and can be downloaded from the Company's website ttps://www.indiafinsec.com/investors-info/

n compliance with section 108 of the Companies Act, 2013 read with rule 20 of The Companies (Management & Administration) Rules, 2014 ("the Rules") including any statutory modification or re enactment thereof for the time being in force), guidelines prescribed by the MCA, the members are provided with the facility to cast their votes on all resolutions set forth in the notice of AGM using electronic voting system (e-voting) provided by CDSL. The voting of members shall be in proportion the equity shares held by them in the paid-up equity share capital of the Company as on Friday, 23rd September 2022 ("Cut-off date").

The remote E-Voting period commences on Tuesday, 27th September 2022 (10:00 am) and ends on Thursday, 29th September, 2022 (5:00 pm). During this period members may cast their votes electronically. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL thereafter. The facility for voting, either through electronic voting system or polling paper shall also be made available at the AGM and Members who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the AGM. The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again. The documents pertaining to the items of business to be transacted

in the AGM are open for inspection at the Registered Office of the Company during business hours on any working day. Pursuant to regulation 42 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure

Requirements) Regulations, 2015 and section 91 of the Companies Act, 2013, The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, 24rd September, 2022 to Friday, 30th September, 2022 (both days inclusive) for the purpose of 28th AGM of the Company. Any person who acquires shares and become member of the Company after the dispatch of notice of the AGM by the Company and whose

name appear in the register of members of the Company or in the statement of beneficial ownership maintained by the Depositories as on cut-off date i.e. 23rd September, 2022 can view the notice convening the AGM on the website of the Company viz indiafinsec@gmail.com, website of stock exchange viz BSE Limited at www.bseindia.com and on the website of CDSL vizwww.evotingindia.com. Such members can exercise their voting rights through e-voting by following the procedure as mentioned in the said notice of AGM. Members are also informed that in case you have any queries or issues

and e-voting manual available at www.evotingindia.comunder help section or write an email to helpdesk evotingindia@cdslindia.com or at 022-23058738 and 022-23058542/43. All grievances connected with he facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, (CDSL, ) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on 022-23058542/43. By the Order of the Board of Directors

regarding e-voting, you may refer Frequently Asked Questions ("FAQs")

For India Finsec Limited Date: 08th September, 2022

Place: New Delhi

Vijay Kumar Dwivedi Company Secretary

(Formerly Himalaya Granites Limited) Regd.Office: Panchalam Village, Melpettai Post, Tindivanam, Tamil Nadu - 604 307 CIN: L20100TN1987PLC015161, Telephone: +91 4147- 290021, Website: www.hgl.co.in, Email: investors@hgl.co.in

**HG INDUSTRIES LIMITED** 

NOTICE OF 34<sup>™</sup> ANNUAL GENERAL MEETING & E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the 34"Annual General Meeting ("AGM") of the Members of HG Industries Limited (formerly Himalaya Granites Limited) ("the Company") will be held or Friday, September 30, 2022 at 11:30 a.m. IST through Video Conferencing ("VC")/Other Audio-Visual Means ("OAVM") in accordance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("Act, 2013") and rules framed thereunder read with Ministry o

Corporate Affairs ("MCA") General Circular No. 14/2020, 17/2020 and 20/2020 dated Apri 08, 2020, April 13, 2020 and May 05, 2020, respectively read with General Circular No 02/2022 dated May 05, 2022 and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/6/ dated May 13, 2022 read with Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 and other applicable circulars to transact the business(es) set out in the Notice of the 34" AGM. The Notice of the 34" AGM along with the explanatory statement and Annual Report for the financial year ended March 31, 2022 have been sent electronically on September 08, 2022 to those Members who have registered their e-mail addresses with the

Company/Company's Registrar and Share Transfer Agent / Depository Participant and whose name appears in the Register of Members as on the close of the business hours o September 02, 2022. Physical copy of the aforesaid documents are not being sent to the shareholders in accordance with the aforesaid MCA Circulars and other applicable In compliance with the provisions of Section 108 of the Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI

(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations"), the Company is pleased to provide to its Members, facility to exercise their right to vote by electronic means in respect of the businesses to be transacted at the AGM through remote e-voting facility (i.e. voting electronically from a place other than the venue of the AGM) and e-voting at the AGM and the same will be provided by Link Intime India Private Limited ("LIIPL"). All the Members are hereby informed that: The remote e-voting period shall commence at 10:00 a.m. IST on September 27,

- 2022 and end at 5:00 p.m. IST on September 29, 2022. The facility for remote e-voting shall be discontinued thereafter Members of the Company holding shares either in physical form or dematerialized
- form as on the cut-off date i.e. September 23, 2022 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as e-voting at the AGM. Any person, who acquires shares of the Company and becomes Member of the Company after sending the Notice of the Meeting and holding shares as on the cut-off
- date i.e. September 23, 2022, needs to refer the instruction given in the Notice which is available on the website of the Company i.e. www.hgl.co.in regarding login ID and password. Members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the close of the working hours of the aforesaid cut-off date and not casting
- their vote by way of remote e-voting, may cast their vote at the AGM through e-voting A Member may participate in the Meeting even after exercising his right to vote
- through remote e-voting, but, shall not be allowed to vote again in the Meeting. Once the vote is cast by the Member, the same shall not be allowed to be changed
- subsequently or cast again. The notice of AGM and the Annual Report is available on the Company's website www.hgl.co.in, on the LIPL's website www.linkintime.co.in and the website of the
- stock exchanges(s) viz: BSE www.bseindia.com. For any queries, the Members may refer to the Frequently Asked Questions and Insta
- Vote e-voting manual available at www.instavote.linkintime.co.in under help section

or write an email to enotices@linkintime.co.in or call at Tel: 022 - 49186000 or to Mr. Hariom Pandey, Company Secretary of the Company at Panchalam Village Melpettai Post, Tindivanam, Tamil Nadu - 604307 at investor@hgl.co.in or contact at +91-4147-290021 For HG INDUSTRIES LIMITED (Formerly Himalaya Granites Limited)

> HARIOM PANDEY COMPANY SECRETARY

VIKAS LIFECARE LIMITED (formerly Vikas Multicorp Limited)

CIN: L25111DL1995PLC073719 Registered Office: 34/1 Vikas Apartments East Punjabi Bagh Delhi-110026 Email: cs@vikaslifecarelimited.com | Website: www.vikaslifecarelimited.com NOTICE

Annual General Meeting & Book Closure Notice is hereby given that the 27th Annual General Meeting ("AGM") of the members of Vikas Lifecare Limited will be held on Thursday, September 29, 2022 at 11:30 A.M. hrough Video Conferencing/ Other Audio Visual Means (VC/OAVM) facility, in ompliance with the provisions of the Companies Act, 2013 (the 'Act'), General Circular No. 14/2020, 17/2020, 20/2020 followed by General Circular No. 02/2021 and all other applicable laws and circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs "MCA") and Securities and Exchange Board of India ("SEBI") circular dated 12 May

'020 and 15 January 2021, to transact the businesses as set out in the Notice of 27

Pursuant to the said Circulars, the Company has sent the Notice of 27th AGM along

with the Annual Report for the Financial Year 2021-22 on Thursday September 8. 2022 through electronic mode to all the members whose email IDs are registered with the Company/depository participant(s). These documents are also available on the Company's website at www.vikaslifecarelimited.com. Also, in compliance with Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of

the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members will remain closed from Friday, 23rd September, 2022 to hursday, 29th September, 2022 (both days inclusive). Pursuant to provisions of section 108 of the Act and rule 20 of the Companies

(Management and Administration) Rules, 2014, as amended, Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and SEBI circular dated 9 December, 2020, members holding shares in physical or dematerialized form, as on the cut-off date, i.e., September 22, 2022, may cast their vote electronically on the business as set out in the Notice of 27th AGM through e-voting platform. The detailed procedure/instructions for e-voting are contained in the Notice of 27th AGM.

In this regard, the members are hereby further notified that:

The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means in the general meeting is Thursday, September 22, 2022. The remote E-voting period will commence from Monday, 26th September, 2022

at 9:00 A.M. (IST) and will end on Wednesday, 28th September, 2022 at 5:00 P.M. (IST). Remote E-voting shall not be allowed beyond the aforesaid period. The persons who have acquired shares and have become member of the

Company after the dispatch of notice may obtain the login ID and password from National Securities Depository Limited (NSDL) on the help desk No. 1800 1020 990 and 1800 22 44 30 or send email to evoting@nsdl.co.in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-

off date only shall be entitled to avail the facility of remote E-voting as well as voting in the general meeting. Members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may also attend/participate in the AGM through VC/OAVM facility, but shall not be

allowed to cast their votes again at the AGM. The manner of registration of email addresses of those members whose email addresses are not registered with the Company/RTA/DP is available in the AGM

The details of Scrutinizer and procedure for Speaker Registration are provided in the AGM Notice.

f you have any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the e-Voting System, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and

e-voting manual or write an email to evoting@nsdl.co.in.

For Vikas Lifecare Limited (formerly Vikas Multicorp Limited) Parul Rai

Date: September 8, 2022 Company Secretary

## STERLING & WILSON Sterling and Wilson Renewable Energy Limited

(Formerly known as Sterling and Wilson Solar Limited) Regd. Office: Universal Majestic, 9" Floor, P. L. Lokhande Marg, Chembur (W) Mumbai - 400043 | Phone: (91-22) 25485300 | Fax: (91-22) 25485331 | CIN: L74999MH2017PLC292281

Email: info@sterlingwilson.com | Website: www.sterlingandwilsonre.com

NOTICE OF THE 5th ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that: The 5th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Sterling and

Place: New Delhi

- Wilson Renewable Energy Limited ("the Company") will be held on Friday. September 30, 2022 at 03:00 p.m. (IST) through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio-Visual Means ("OAVM") to transact the business, as set out in the Notice convening the AGM ("Notice of AGM"), in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with all the circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI").
- The Company has sent the Annual Report for the F. Y. 2021-22 along with the Notice of the AGM on September 08, 2022 through electronic mode (i.e. e-mail) to those Members whose e-mail address was registered with the Depository Participant(s)/ the Company/ the Company's Registrar and Transfer Agent i.e. Link Intime India Pvt. Ltd. ("RTA").

The documents referred to in the Notice of AGM are available electronically for inspection by the Members from the date of circulation of the Notice of the AGM till the date of the AGM. Members seeking to inspect such documents can send an e-mail to ir@sterlingwilson.com.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations and the Secretarial Standards-2 on General Meetings ("SS-2") issued by the Institute of Company Secretaries of India, the Company is pleased to provide the Members with the facility to cast their vote(s) electronically ("remote e-voting") as well e-voting at AGM through e-voting services of NSDL in respect of the businesses to be transacted at the AGM. The procedure to cast vote using e-voting system of National Securities Depository Limited ("NSDL") has been provided in the Notice.

The Members are hereby informed that remote e-voting facility would be available during the following period:

Commences on: Tuesday, September 27, 2022 at 09:00 a.m. (IST)

Ends on: Thursday, September 29, 2022 at 5:00 p.m. (IST). During this period, Members can select EVEN 122274 to cast their votes

electronically. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL thereafter. The voting right of the Members shall be in proportion to their share in the paid-up equity share capital of the Company as on Friday, September 23, 2022 ("cut-off date"). Once the vote on a resolution is cast by the Member, the same cannot be changed subsequently. Any person, who acquires the share(s) of the Company and becomes a Member of the Company after the dispatch of Notice of AGM and holds the share(s) as on the cut-off date can also cast their vote through remote e-voting facility on the website of NSDL i.e. www.evoting.nsdl.com. Any person, whose name is recorded in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories/ RTA as on the cut-off date only shall be entitled to cast vote either through remote e-voting or e-voting at the AGM.

Those Members, who will be present in the AGM through VC/ OAVM facility and have not casted their vote on the businesses set forth in the Notice of AGM through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM. Members who have cast their vote through remote e-voting, may attend the AGM but will not be entitled to cast their vote again at the AGM.

The Annual Report of the Company for the F. Y. 2021-22 along with Notice of AGM and e-voting instructions is also available on the Company's website at www.sterlingandwilsonre.com, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and also on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com. Manner of registering/updating e-mail address:

Members are requested to register their e-mail address with their respective Depository Participant(s) by following the procedure prescribed by their

Depository Participant. Members can temporarily register their e-mail addresses with the Company and/ or the RTA by sending an email to ir@sterlingwilson.com and/or mt.helpdesk@linkintime.co.in by providing details such as Name, DPID -Client ID, PAN, mobile number and e-mail address. In case of any gueries, Members may refer to the Frequently Asked Questions

(FAQs) for Members and e-voting user manual for Members available at the Downloads sections of www.evoting.nsdl.com or contact NSDL by e-mail at evoting@nsdl.co.in or call on .: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30 or contact the Company by e-mail at ir@sterlingwilson.com. Contact details for addressing e-voting related gueries/ grievances, if any:

Ms. Pallavi Mhatre, Manager

National Securities Depository Limited Trade World - A Wing, Kamala Mills Compound

Lower Parel, Mumbai - 400 013

Email ID: pallavid@nsdl.co.in Joining the AGM through VC/ OAVM

Place: Mumbai

New Delhi

Date: September 08, 2022

## Members will be able to attend the AGM through VC/ OAVM, through the NSDL

platform. Members may access the same at www.evoting.nsdl.com. The information about login credentials to be used and the steps to be followed for attending the AGM are explained in the Notice of the AGM. This newspaper communication is available on website of the Company i.e. at

www.sterlingandwilsonre.com and on the website of NSDL i.e. www.evoting.nsdl.com. For Sterling and Wilson Renewable Energy Limited

Jagannadha Rao Ch. V.

Company Secretary

Place: New Delhi

Date: September 08, 2022

Email: sindustri693@gmail.com NOTICE OF 31"AGM, E-VOTING & BOOK CLOSURE

("NSDL") at www.evoting.nsdl.com. Remote e-Voting: In compliance with relevant provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013read with relevant rules and other applicable provisions, the

Company is providing the facility of remote e-Voting before as well as during the AGM in respect of the business to be transacted at the AGM through NSDL, detailed instructions are given in the Notice of the AGM. The remote e-voting shall commence on 27° September, 2022 at 9AM and end on 29" September, 2022at 5 PM. The remote e-Voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter and Members will not be allowed to vote electronically beyond the said date and time. The voting rights of the Members shall be in proportion to their share of the paid-up equity share

Registration of e-mail addresses: Members (Physical and demat holders) who have not yet registered their

By order of the Board Anil Kumar Jain

Director DIN NO. 00014601

you have any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the e-Voting ystem, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual vailable at www.evotingindia.com, under help section or write an email to evoting@nsdl.co.in

For G G Engineering Limited Date: September 8, 2022 Place: New Delhi Company Secretary & Compliance Officer

NOTICE is hereby given that pursuant to the provision of Section 124 of the Companies

The details of shares and dividend liable to be transferred to IEPF Authority are uploaded on website of the Company at www.rinfra.com and the Shareholders are requested to refer to the web-link https://www.rinfra.com/web/rinfra/unpaid-unclaimed-dividend-holders to verify their details. Shareholders may also note that the details uploaded by the Company

subsequently to the demat account of the IEPF Authority without any further notice. o. For shares held in Electronic Form: The shares will be directly transferred to the demat account of the IEPF Authority with the help of Depository Participant(s) without further

to IEPF Authority including all benefits accruing on such share(s), if any, can be claimed Shareholders are requested to claim their share(s) and/or unpaid / unclaimed dividend, as

Company's Registrar and Transfer Agent, KFin Technologies Limited, the Company's

Paresh Rathod Company Secretary & Compliance Officer

## तारिणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड

(CIN: L51101DL2006PLC148967)

रजिस्ट्रार ऑफिस: 3/14ए पहली मंजिल विजय नगर, डबल स्टोरी, दिल्ली-110009 फोन नंबर: 011-32601237 मोबाइल: 9811024165 ई मेल: tarinienterprisespvtltd@gmail.com

#### शेयरधारकों की 16 वीं वार्षिक आम बैठक और बुक क्लोजर की सूचना

एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि तारिणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड के सदस्यों की 16 वीं वार्षिक आम बैठक शुक्रवार, 30 सितंबर, 2022 को दोपहर 03.30 बजे निजी कार्यालय 3/14ए पहली मंजिल विजय नगर, डबल स्टोरी, दिल्ली-110009 में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जाएगी ताकि उक्त एजीएम बुलाने वाले नोटिस में सूचीबद्ध व्यवसाय का लेनदेन किया जा सके।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए पूर्वोक्त नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट ( उन सदस्यों को ईमेल दवारा भेजी गई है जिनके ईमेल पते डिपॉजिटरी द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं या कंपनी के साथ पंजीकृत हैं और उन सदस्यों को अन्य अन्मत मोड द्वारा, जिन्होंने अपना ईमेल पता ) पंजीकृत नहीं किया है, कंपनियों के अधिनियम 2013 की धारा 101 के संदर्भ में कंपनियों के नियम 18 के साथ पढ़ा (प्रबंधन और & प्रशासन ) नियम, 2014.

नोटिस कंपनी www.tarinienterprises.in की वेबसाइट पर और सीडीएसएल की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाता है, जो at www.evoting.nsdl.com पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग स्विधा प्रदान करती है कंपनी अपने शेयरधारकों के लिए एक विकल्प के रूप में दूरस्थ ई-वोटिंग सुविधा का विस्तार करने में प्रसन्न है, ताकि वे इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकें। वैकल्पिक रूप से, सदस्य आम सभा स्थल पर मतदान दवारा भी अपना वोट डाल सकते हैं। यदि कोई सदस्य रिमोट ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करके वोट देना चाहता है तो उसे बैठक ब्लाने वाले नोटिस में "निर्देश" शीर्षक के तहत दिए गए निर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन करना चाहिए। रिमोट ई-वोटिंग का विकल्प मंगलवार, 27 सितंबर 2022 को सुबह 9.00 बजे से गुरुवार 29 सितंबर 2022 को शाम 5.00 बजे तक उपलब्ध है। रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति उक्त तिथि और समय से परे नहीं दी जाएगी। कोई भी सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान के अपने अधिकार का प्रयोग करने के बाद भी आम बैठक में भाग ले सकता है, लेकिन बैठक में फिर से

कोई व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि को जमाकर्ताओं दवारा रखे गए सदस्यों के रजिस्टर में या लाभार्थी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज है, केवल सामान्य बैठक में रिमोट ई-वोटिंग के साथ-साथ मतदान की स्विधा का लाभ उठाने का हकदार होगा। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से या आम बैठक में मतदान करने की पात्रता निर्धारित करने की कट-ऑफ तिथि श्क्रवार, 23 सितंबर, 2022 निर्धारित की गई है।

मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

दिनांक: 08.09.2022

स्थान: दिल्ली

क्र.

सं.

श्री पीयूष कुमार वर्मा पुत्र श्री श्याम नन्द वर्मा (कर्जदार)

जिन व्यक्तियों ने शेयर धारको का अधिग्रहण किया है और नोटिस के प्रेषण के बाद कंपनी के सदस्य बन गए हैं, वे helpdesk.evoting@cdslindia.com को अन्रोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं

इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान से जुड़ी किसी भी शिकायत के मामले में, आप 022- 23058738 और 22-23058542-4 पर कॉल कर सकते हैं।

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 10 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के अनुसार, कंपनी की 16 वीं वार्षिक आम बैठक के उद्देश्य से शनिवार, 24 सितंबर 2022 से श्क्रवार 30 सितंबर 2022 (दोनों दिन शामिल) तक कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर ब्क बंद रहेगी।

> निदेशक मंडल के आदेश से अभय चंद बर्दिया डीन 00009217

> > शाखा का नाम

खाते का नाम

कर्जदार/जमानितयों का नाम तथा पता खाता

एप्पल मेटल इंडस्ट्रीज लिमिटेड

रजिस्ट्रार ऑफिस: प्राइवेट ऑफिस नंबर-303, थर्ड फ्लोर बिल्डिंग नंबर-5, कम्युनिटी सेंटर, प्रीत विहार, दिल्ली-110092

फोन +91 11 41755370 ईमेल: office@applegroup.co.in

सीआईएन: L27104DL1972PLC206966 शेयरधारकों की 48 वीं वार्षिक आम बैठक और बुक क्लोजर की सूचना

एतद्दवारा नोटिस दिया जाता है कि एप्पल मेटल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सदस्यों की 48 वीं वार्षिक आम बैठक श्क्रवार, 30 सितंबर, 2022 को दोपहर 03.30 बजे निजी कार्यालय संख्या 303, तीसरी मंजिल भवन संख्या -5, साम्दायिक केंद्र, प्रीत विहार, दिल्ली -110092 में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जाएगी ताकि उक्त एजीएम ब्लाने वाले नोटिस में सूचीबद्ध व्यवसाय का लेनदेन किया जा सके।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए पूर्वोक्त नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट ( उन सदस्यों को ईमेल द्वारा भेजी गई है जिनके ईमेल पते डिपॉजिटरी द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं या कंपनी के साथ पंजीकृत हैं और उन सदस्यों को अन्य अन्मत मोड द्वारा, जिन्होंने अपना ईमेल पता ) पंजीकृत नहीं किया है, कंपनियों के अधिनियम 2013 की धारा 101 के संदर्भ में कंपनियों के नियम 18 के साथ पढ़ा (प्रबंधन और & प्रशासन) नियम, 2014.

नोटिस कंपनी www.applemetal.co.in की वेबसाइट पर और सीडीएसएल की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाता है, जो www.evotingindia.com पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सुविधा प्रदान करती है

कंपनी अपने शेयरधारकों के लिए एक विकल्प के रूप में दूरस्थ ई-वोटिंग स्विधा का विस्तार करने में प्रसन्न है, ताकि वे इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकें। वैकल्पिक रूप से, सदस्य आम सभा स्थल पर मतदान द्वारा भी अपना वोट डाल सकते हैं। यदि कोई सदस्य रिमोट ई-वोटिंग स्विधा का उपयोग करके वोट देना चाहता है तो उसे बैठक बुलाने वाले नोटिस में "निर्देश" शीर्षक के तहत दिए गए निर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन करना चाहिए। रिमोट ई-वोटिंग का विकल्प मंगलवार, 27 सितंबर 2022 को स्बह 10.00 बजे से गुरुवार 29 सितंबर 2022 को शाम 5.00 बजे तक उपलब्ध है। रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति उक्त तिथि और समय से परे नहीं दी जाएगी। कोई भी सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान के अपने अधिकार का प्रयोग करने के बाद भी आम बैठक में भाग ले सकता है, लेकिन बैठक में फिर से मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

कोई व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि को जमाकर्ताओं द्वारा रखे गए सदस्यों के रजिस्टर में या लाभार्थी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज है, केवल सामान्य बैठक में रिमोट ई-वोटिंग के साथ-साथ मतदान की स्विधा का लाभ उठाने का हकदार होगा। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से या आम बैठक में मतदान करने की पात्रता निर्धारित करने की कट-ऑफ तिथि शुक्रवार, 2 सितंबर, 2022 निर्धारित की गई है।

जिन व्यक्तियों ने शेयर धारको का अधिग्रहण किया है और नोटिस के प्रेषण के बाद कंपनी के सदस्य बन गए हैं, वे helpdesk.evoting@cdslindia.com को अन्रोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त

इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान से जुड़ी किसी भी शिकायत के मामले में, आप 022- 23058738 और 22-23058542-4 पर कॉल कर सकते हैं।

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 10 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के अनुसार, कंपनी की 48 वीं वार्षिक आम बैठक के उद्देश्य से शनिवार, 24 सितंबर 2022 से श्क्रवार 30 सितंबर 2022 (दोनों दिन शामिल) तक कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर ब्क बंद रहेगी।

> निदेशक मंडल के आदेश से हिरेन विनोद शाह निर्देशक डीन 08784164



Registered Office: 34/1 Vikas Apartments East Punjabi Bagh Delhi-110026 Email: cs@vikaslifecarelimited.com | Website: www.vikaslifecarelimited.com NOTICE

Annual General Meeting & Book Closure Notice is hereby given that the 27th Annual General Meeting ("AGM") of the members of Vikas Lifecare Limited will be held on Thursday, September 29, 2022 at 11:30 A.M. through Video Conferencing/ Other Audio Visual Means (VC/OAVM) facility, in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 (the 'Act'), General Circular No. 14/2020, 17/2020, 20/2020 followed by General Circular No. 02/2021 and all other applicable laws and circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs "MCA") and Securities and Exchange Board of India ("SEBI") circular dated 12 May 2020 and 15 January 2021, to transact the businesses as set out in the Notice of 27"

Pursuant to the said Circulars, the Company has sent the Notice of 27th AGM along with the Annual Report for the Financial Year 2021-22 on Thursday September 8, 2022 through electronic mode to all the members whose email IDs are registered with the Company/depository participant(s). These documents are also available on the Company's website at www.vikaslifecarelimited.com.

Also, in compliance with Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members will remain closed from Friday, 23rd September, 2022 to Thursday, 29th September, 2022 (both days inclusive). Pursuant to provisions of section 108 of the Act and rule 20 of the Companies

(Management and Administration) Rules, 2014, as amended, Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and SEBI circular dated 9 December, 2020, members holding shares in physical or dematerialized form, as on the cut-off date, i.e., September 22, 2022, may cast their vote electronically on the business as set out in the Notice of 27th AGM through e-voting platform. The detailed procedure/instructions for e-voting are contained in the Notice of 27th AGM.

In this regard, the members are hereby further notified that: The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means in

the general meeting is Thursday, September 22, 2022. The remote E-voting period will commence from Monday, 26th September, 2022 at 9:00 A.M. (IST) and will end on Wednesday, 28th September, 2022 at 5:00 P.M.

(IST). Remote E-voting shall not be allowed beyond the aforesaid period. The persons who have acquired shares and have become member of the Company after the dispatch of notice may obtain the login ID and password from National Securities Depository Limited (NSDL) on the help desk No. 1800 1020 990 and 1800 22 44 30 or send email to evoting@nsdl.co.in

off date only shall be entitled to avail the facility of remote E-voting as well as voting in the general meeting. Members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may also attend/participate in the AGM through VC/OAVM facility, but shall not be

the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-

allowed to cast their votes again at the AGM. The manner of registration of email addresses of those members whose email addresses are not registered with the Company/RTA/DP is available in the AGM

The details of Scrutinizer and procedure for Speaker Registration are provided

you have any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the e-Voting System, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and

e-voting manual or write an email to evoting@nsdl.co.in. For Vikas Lifecare Limited

Date: September 8, 2022 Place: New Delhi

(formerly Vikas Multicorp Limited) Parul Rai **Company Secretary** 

अचल सम्पत्तियों का विवरण

बंधककर्ता/स्वामी का नाम

[सम्पत्ति(यों) के बंधककर्ता]

मकान नं. 2सरा तल, भवन सम्पत्ति नं. 589-पी, सेक्टर-09, गुरुग्राम, हरियाणा, श्री पीयूष

कुमार वर्मा एवं श्रीमती बबीता वर्मा के नाम पर, क्षेत्रफल कवर्ड एरिया 56.168 वर्ग मीटर

## X VIKAS ECŐTECH LTD.

एतद्दवारा सुचना दी जाती है कि विकास ईकोटेक लिमिटेड के सदस्यों की 37वीं वार्षिक आम

बैठक (''एजीएम'') गुरुवार, 29 सितंबर, 2022 को शाम 4.30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य

CIN: L65999DL1984PLC019465 पंजीकृत कार्यालय: 34/1, विकास अपार्ट्नेंट, पूर्वी पंजाबी बाग, दिल्ली-110026 दूरभाष नं. 011 4314 4444 | ईमेल: cs@vikasecotech.com

वेबसाइट: www.vikasecotech.com वार्षिक आम बैठक एवं बही समापन की सूचना

दृश्य–श्रव्य संसाधनों (वीसी/ओएवीएम) सुविधा के माध्यम से आयोजित की जाएगी। यह आयोजन, कंपनी अधिनियम 2013 ('अधिनियम') सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020, 17/2020, 20/2020 के प्रावधानों के अनुपालन में सामान्य परिपत्र संख्या 02/2021 और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (''एमसीए'') तथा भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड (''सेबी'') परिपत्र दिनांक 12 मई 2020 और 15 जनवरी 2021 द्वारा निर्गत अन्य सभी प्रयोज्य विधियों और परिपत्रों के अनपालन में. 37वीं एजीएम की सूचना में निर्धारितानुसार व्यवसायों का लेन–देन करने के लिये किया जायेगा। उक्त परिपत्रों के अनुसरण में, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2021–22 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ 37वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना बुधवार, 7 सितंबर, 2022 को इलेक्ट्रॉनिक विधि के माध्यम से उन सभी सदस्यों को भेज दी है, जिनकी ईमेल आईडी कंपनी / डिपॉजिटरी प्रतिभागी(गियों) के साथ पंजीकृत हैं। यह दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.vikasecotech.com पर भी उपलब्ध हैं। साथ ही, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमावली 2015 के विनियम 42 के अनुपालन में, सदस्यों का रजिस्टर शुक्रवार, 23 सितंबर, 2022 से गुरुवार, 29 सितंबर, 2022 (दोनों दिन सिम्मिलित) तक बंद रहेगा। अधिनियम की धारा 108 और यथा संशोधित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम २०. सेबी (सचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमावली २०१५ के विनियम 44 और सेबी परिपत्र दिनांक 9 दिसंबर, 2020 के प्रावधानों के अनुसार, कट-ऑफ तिथि अर्थात् 22 सितंबर, 2022 को भौतिक या अभौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से 37वीं एजीएम की सूचना में निर्धारितानुसार व्यवसाय पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में अपन वोट डाल सकते हैं। ई-वोटिंग के लिए विस्तृत प्रक्रिया/अनुदेश 37वीं एजीएम की सूचना मे

इस संबंध में, सदस्यों को एतदद्वारा आगे सूचित किया जाता है किः 1. आम बैठक में इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान की पात्रता निर्धारित करने की कट—ऑफ तिथि

गुरुवार, 22 सितंबर, 2022 है। 2. रिमोट ई-वोटिंग अवधि सोमवार, 26 सितंबर, 2022 को प्रातः 9.00 बजे (भा.मा.स. पर) प्रारंभ होगी तथा बुधवार, 28 सितंबर, 2022 को सायं 5.00 बजे (भा.मा.स. पर) समाप्त होगी। उक्त

अवधि के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। 3. जिन व्यक्तियों ने शेयर अर्जित किए हैं और सूचना भेजे जाने के बाद कंपनी के सदस्य बने हैं. वे नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) से हेल्प डेस्क नंबर 1800 1020 990 / 1800 22 44 30 पर बात करके लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं या इस

संबंध में evoting@nsdl.co.in को एक ई-मेल लिखकर भेज सकते हैं। 4. एक व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा अनुरक्षित लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में कट-ऑफ तिथि को दर्ज है, केवल वही व्यक्ति रिमोट ई-वोटिंग के साथ-साथ आम सभा में वोटिंग की भी सुविधा प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

5. सदस्य जिन्होंने एजीएम से पहले रिमोट ई—वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे भी

वीसी / ओएवीएम स्विधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं / उसमें भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें एजीएम में पूनः वोट डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 6. जिन सदस्यों के ईमेल पते कंपनी/आरटीए/डीपी के साथ पंजीकृत नहीं हैं, उनके ईमेल पतों के पंजीकरण की प्रविधि का उल्लेखन, एजीएम की सूचना में किया गया है।

7. जांचकर्ता और स्पीकर पंजीकरण की प्रक्रिया के विवरण एजीएम सूचना में दिये गये हैं। यदि आपके पास एजीएम में उपस्थित होने एवं ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से ई-वोटिंग करने के संबंध में कोई प्रश्न या समस्या है, तो आप अक्सर पूछे जानेवाले प्रश्न ('एफएक्यू') और ई—वोटिंग मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं या evoting@nsdl.co.in पर एक ईमेल लिख सकते

ई-नीलामी की

तिथि⁄समय

27.10.2022

11.00 बजे पूर्वा

दिनांकः 8 सितंबर, 2022 स्थानः नई दिल्ली

(ए) आरक्षित मूल्य

(बी) ईएमडी (ईएमडी जमा

करने की अन्तिम तिथि)

(सी) संविदा वृद्धि राशि

कृते विकास इकोटेक लिमिटेड प्रशांत सजवानी कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

प्रतिभति क्रेडिटर के संज्ञान में

ऋणभारों का विवरण

अधिकृत प्राधिकारी का नाम एवं

सम्पर्क नं.

ज्ञात नहीं

श्री एच.एस. कर्दम

#### पंजाब नेशनल बेंक punjab national bank ...the name you can BANK upon! A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING

स्थान: दिल्ली

दिनांक: 08.09.2022

सर्किल सस्त्र सेंटर, पाँकेट-ई, मयूर विहार फेज-II, दिल्ली-110091, ई-मेल : cs8075@pnb.co.in, दूरभाष : 011-22779758, 22785289

अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना।

एतद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों) एवं जमानती(यों) को सूचना दी जाती है कि प्रतिभूति क्रेडिटर के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अंचल सम्पत्ति, जिसका भौतिक/सांकेतिक कब्जा बैंक/प्रतिभूत क्रेडिटर के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा कर लिया गया था, की बिक्री सम्बद्ध कर्जदार(रों) एवं जमानती(यों) से बैंक/प्रतिभृत क्रेडिटर के बकायों की वसूली हेतू नीचे तालिका में वर्णित तिथियों पर ''जहाँ है वहाँ है'', ''जो है वहीं है'' तथा ''जो कुछ भी है वहीं है'' आधार पर की जायेगी। आरक्षित मूल्य तथा जमा धरोहर राशि नीचे तालिका में सम्बन्धित सम्पत्तियों के सम्मुख उल्लिखित के अनुसार होगी। प्रतिभत आस्त्रियों की अन्मची

21.11. 2.11		3111 ( 11 - 11		(1	411 313 13 14							
(ए)	सरफैसी	अधिनियम,	2002	की	धारा	13(2)	के	तहत	माँग	सूचना	की	तिथि

(बी) मांग सचना की तिथि तक बकाया राशि

(सी) सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के तहत कब्जा करने की तिथि

(डी) कब्जे की प्रकृति सांकेतिक/भौतिक/रचनात्मक 01.07.2021

रु. 85.70 लाख + भावी ब्याज, अन्य प्रभार तथा

	पताः पानमहाराजन, प्रकाश सरपंच के पास, मकान नं. 589, सेक्टर-9, भूतल, गुड़गांव, हरियाणा-122001, साथ ही; कार्यालय का पताः डेल्फीक्यू इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हंस राम मार्केट, उद्योग विहार, सेक्टर -18, गुड़गांव, हरियाणा = 122015	पूर्ण एवं अन्तिम भुगतान तक व्यय	(604.59 वर्ग फीट).	(10.08.2022) रु. 25000	से 04.00 बजे	श्रा एच.एस. कदम (मो. नं. 8171589938) अधिकृत प्राधिकारी सर्किल सस्त्र ईस्ट
	श्रीमती बबीता गौबा पत्नी श्री पीयूष कुमार वर्मा (कर्जदार) पताः पानमहाराजन, प्रकाश सरपंच के पास,	16.10.2021		V. 25000		दिल्ली
	मकान नं. 589, सेक्टर-9, भूतल, गुड़गांव, हरियाणा-122001	सांकेतिक				.,,,,,
2.	गांधी नगर (008510)	09.09.2020	निर्मित सम्पत्ति (नई) IX/5960 (पार्ट), जीएफ, (ओल्ड) 596/45-ए/4, राज गुरु गली,	<b>হ. 109.20 লা</b> ख	27.10.2022	ज्ञात नहीं
	मैसर्स वृद्धि निट्स एलएलपी (कर्जदार) पता:– क्75949, गली नं. 12, रघुबरपुरा नंबर–2, गांधी नगर, पूर्वी दिल्ली–31 शिश जैन (पार्टनर) पता: 1222/19ए, गली नं. 7, शंकर नगर, कृष्णा नगर, दिल्ली–110051	रु. 471.07 लाख + पूर्ण एवं अन्तिम भुगतान की तिथि तक भावी ब्याज, अन्य प्रभार तथा व्यय	सुभाष मोहल्ला नं. 2, गांधी नगर, दिल्ली पूर्व-110031 का इक्विटेबल बंधक, क्षेत्रफलः 53 वर्ग मीटर, श्रीमती मीनाक्षी जैन के स्वामित्व में।	रु. 10.92 लाख (26.10.2022)	11.00 बजे पूर्वा. से 04.00 बजे अप.	श्री एच.एस. कर्दम (मो. नं. 8171589938)
	संजीव जैन (पार्टनर) पताः 1222/19ए, गली नं. 7, शंकर नगर, कृष्णा नगर, दिल्ली-110051 साथ ही पताः - 1/6794 गली लाहौरियां, पूर्वी रोहताश नगर, दिल्ली-110032	10.12.2020		रु. 25000	, siq.	अधिकृत प्राधिकारी सर्किल सस्त्र ईस्ट दिल्ली
	फलक जैन (पार्टनर) पताः 1222/19ए, गली नं. 7, शंकर नगर, कृष्णा नगर, दिल्ली-110051, साथ ही पताः- 1/6794 गली लाहौरियां, पूर्वी रोहताश नगर, दिल्ली-110032	सांकेतिक				13
	मीनाक्षी जैन (गारंटर) पताः 1/6794 गली लाहौरियां, पूर्व रोहताश नगर, दिल्ली-110032					
3.	गांधी नगर (008510)	09.09.2020	एक्स/2849 पर निर्मित संपत्ति का इक्विटेबल बंधक, गली नं5, रघुबरपुरा नं -2, गांधी	<u> </u>	27.10.2022	ज्ञात नहीं
	मैसर्स वृद्धि निट्स एलएलपी (कर्जदार) पताः- IX/5949, गली नं. 12, रघुबरपुरा नंबर-2, गांधी नगर, पूर्वी दिल्ली-31	रु. 471.07 लाख + पूर्ण एवं अन्तिम भुगतान की	नगर, दिल्ली-110031, क्षेत्र 60 वर्ग मीटर, श्रीमती शिश जैन और श्रीमती मीनाक्षी जैन के		11.00 बजे पूर्वा.	श्री एच.एस. कर्दम
	शिश जैन (पार्टनर) पताः 1222/19ए, गली नं. 7, शंकर नगर, कृष्णा नगर, दिल्ली-110051	तिथि तक भावी ब्याज, अन्य प्रभार तथा व्यय	स्वामित्व में।	(26.10.2022) ₹. 25000/-	से 04.00 बजे अप.	(मो. नं. 8171589938)
	संजीव जैन (पार्टनर) पताः 1222/19ए, गली नं. ७, शंकर नगर, कृष्णा नगर, दिल्ली-110051 साथ ही पताः - 1/6794 गली लाहौरियां, पूर्वी रोहताश नगर, दिल्ली-110032 फलक जैन (पार्टनर) पताः 1222/19ए, गली नं. ७, शंकर नगर, कृष्णा नगर, दिल्ली-110051 साथ ही पताः- 1/6794 गली लाहौरियां, पूर्वी रोहताश नगर, दिल्ली-110032	10.12.2020		₹. 25000/−	अप.	अधिकृत प्राधिकारी सर्किल सस्त्र ईस्ट दिल्ली
	मीनाक्षी जैन (गारंटर) पताः 1/6794 गली लाहौरियां, पूर्व रोहताश नगर, दिल्ली-110032	सांकेतिक				14//11
	मयुर विहार फेज II, दिल्ली (440800)	12.07.2017		रु.167.80 लाख	27.10.2022	जात नहीं
4.	मिथूर विहार फेज 11, दिल्ला (440800) मैसर्स गप्ता एक्सपोर्ट गारमेंटस -प्रोपराइटर श्री अनिल कमार गप्ता (कर्जदार)	रु. 312.88 लाख + पूर्ण एवं अन्तिम भुगतान तक	बिल्ट-अप सम्पत्ति सं. बी -114, तीन ओर से खुला, माप 200 वर्ग गज, दो दुकानों की पूरी संरचना के साथ प्राइवेट नं. 7 और 8 और तीन कमरे भृतल पर और बरामदा (छत		11.00 बजे पूर्वा.	श्री सुरेन्द्र सिंह
	पता : नं. 12, न्यू मिनी मार्केट, जनपथ, दिल्ली-110001	भावी ब्याज, अन्य प्रभार तथा व्यय	और टेरेस के अधिकार रहित भूतल पर दुकान संख्या 1 से 6 को छोड़कर), पहली मंजिल	(	से 04.00 बजे	(मो. नं.9368162196)
	साथ ही : दुकान संख्या बी-75, रमेश पार्क, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092,	18.09.2017	पर पांच कमरे माप 200 वर्ग गज, इसकी छत और टेरेस के अधिकार सहित अंतिम मंजिल	रु. 25000/−	अप.	अधिकृत प्राधिकारी सर्किल सस्त्र ईस्ट
	साथ ही : दुकान नं. आर–59, रमेश पार्क, लक्ष्मी नगर, दिल्ली–110092 साथ ही : 35/6, स्ट्रीट नंबर 6, तुगलकाबाद, गुरुद्वारा के पास, दिल्ली	सांकेतिक एवं आंशिक कब्जा-दूसरी मंजिल कब्जा)	तक निर्माण के अधिकार के साथ, खसरा नं. 452 में से, बी-ब्लॉक, गली डाकघर, शकरपुर की आबादी में स्थित, ग्राम मंडावली के क्षेत्र में, फजलपुर, दिल्ली - 110092. शिव नारायण			दिल्ली
	श्री अनिल कुमार गुप्ता (स्वर्गीय श्री शिव नारायण गुप्ता के कानूनी उत्तराधिकारी (कर्जदार)		गुप्ता के नाम पर			
	पता : बी-114, डांकघर वाली गली, शकरपुर, विकास मार्ग के पास, दिल्ली-110092		3			
	श्री अनुज गुप्ता (स्वर्गीय श्री शिव नारायण गुप्ता के कानूनी उत्तराधिकारी) पता : बी-114, डाकघर वाली गली, शकरपुर, विकास मार्ग के पास, दिल्ली-110092					
						~
5.	शा.का.: शास्त्री नगर, दिल्ली (139800)	03.10.2020	बिल्ट अप सम्पत्ति नं. एक्स/3470 का बेसमेंट, माप क्षेत्र 103.5 वर्ग गज, बेसमेंट में दो हॉल, छत के स्तर तक, कॉमन सीढी का उपयोग करने के अधिकार के साथ, प्लॉट नंबर	্চ. 125.75 লাख হ. 12.58 লাख	27.10.2022 11.00 बजे पूर्वा.	ज्ञात नहीं
	मैसर्स नंदी फैब्रिक्स प्रोपराइटर श्री आशीष शर्मा (कर्जदार) पताः /3470, बेसमेंट, न्यू जैन मार्कट, शांति मोहल्ला, गांधी नगर, दिल्ली–110031 श्री आशीष शर्मा प्रोपराइटर) पताः डी–299, यूजीएफ, आनंद विहार, नई दिल्ली–110095।	रु. 302.35 लाख + पूर्ण एवं अन्तिम भुगतान की तिथि तक भावी ब्याज, अन्य प्रभार तथा व्यय	एक्स/3470 में से, खसरा नं. 248/1 में से, आबादी सीलमपुर रोड, रघुबरपुरा नंबर 2, गांधी		से 04.00 बज	श्री सुरेन्द्र सिंह (मो. नं.9368162196)
	श्री आशीष शर्मा प्रापराइटर) पताः डा-२९५, यूजाएफ, आनद विहार, नइ दिल्ली-1100951 श्री आनंद शर्मा (गारंटर) पताः 88, गली 1, शंकर नगर, कृष्णा नगर, दिल्ली-110051,	,	नगर, गांव सीलमपुर के क्षेत्र में, इलाका शाहदरा दिल्ली-110031, जूही शर्मा के नाम पर।		अप.	अधिकृत प्राधिकारी सर्किल सस्त्र ईस्ट
	साथ ही : डी-299, यूजीएफ, आनंद विहार, नई दिल्ली-110095।	29.12.2020				दिल्ली
	श्रीमती जूही शर्मा पत्नी श्री आशीष शर्मा (गारंटर) पताः डी-299, यूजीएफ, आनंद विहार, नई दिल्ली-110095	सांकेतिक				
	श्रीमती बीना शर्मा पत्नी श्री आनंद शर्मा (गारंटर) पताः 88, गली 1, शंकर नगर, कृष्णा नगर, दिल्ली-110051, साथ ही : डी-299, युजीएफ, आनंद विहार, नई दिल्ली-110095					
6	शा.का.: शास्त्री नगर, दिल्ली (139800)	03.10.2020	बिल्ट अप सम्पत्ति नं. एक्स/3470 का बेसमेंट, माप क्षेत्र 103.5 वर्ग गज, बेसमेंट में दो	रु. 125.75 लाख	27.10.2022	जात नहीं
0.	भैसर्स नंदी फैब्रिक्स प्रोपराइटर श्री आशीष शर्मा (कर्जदार)	रु. 302.35 लाख + पूर्ण एवं अन्तिम भुगतान की	विल्ट अप सम्पत्ति न. एक्स/34/0 की बसमट, माप क्षेत्र 103.5 वर्ग गर्ज, बसमट में दी हॉल, छत के स्तर तक, कॉमन सीढी का उपयोग करने के अधिकार के साथ, प्लॉट नंबर		11.00 बजे पूर्वा.	श्री सुरेन्द्र सिंह
	पताः /3470, बेसमेंट, न्यू जैन मार्केट, शांति मोहल्ला, गांधी नगर, दिल्ली-110031	तिथि तक भावी ब्याज, अन्य प्रभार तथा व्यय	एक्स/3470 में से, खसरा नं. 248/1 में से, आबादी सीलमपुर रोड, रघुबरपुरा नंबर 2, गांधी	(26.10.2022)	से 04.00 बजे	(मो. नं.9368162196)
	श्री आशीष शर्मा प्रोपराइटर) पताः डी-299, यूजीएफ, आनंद विहार, नई दिल्ली-110095। श्री आनंद शर्मा (गारंटर) पताः 88, गली 1, शंकर नगर, कृष्णा नगर, दिल्ली-110051,	29.12.2020	नगर, गांव सीलमपुर के क्षेत्र में, इलाका शाहदरा दिल्ली-110031, बीना शर्मा के नाम पर।	रु. 25000/−	अप.	अधिकृत प्राधिकारी सर्किल सस्त्र ईस्ट
	साथ ही : डी-299, यूजीएफ, आनंद विहार, नई दिल्ली-110095।	यांकेतिक सांकेतिक				दिल्ली
	श्रीमती जूही शर्मा पत्नी श्री आशीष शर्मा (गारंटर) पताः डी-299, यूजीएफ, आनंद विहार, नई दिल्ली-110095 श्रीमती बीना शर्मा पत्नी श्री आनंद शर्मा (गारंटर) पताः 88, गली 1, शंकर नगर, कृष्णा नगर, दिल्ली-110051,					
	साथ ही : डी-299, यूजीएफ, आनंद विहार, नई दिल्ली-110095					
7.	शा.का.: शास्त्री नगर, दिल्ली (139800)	03.10.2020	बेसमेंट में सीलिंग स्तर तक दो दुकानें, माप क्षेत्रफल 40.44 वर्ग गज अर्थात 33.81 वर्ग	<b>হ. 49.14 লা</b> ন্ত	27.10.2022	ज्ञात नहीं
	मैसर्स नंदी फैब्रिक्स प्रोपराइटर श्री आशीष शर्मा (कर्जदार)	रु. 302.35 लाख + पूर्ण एवं अन्तिम भुगतान की	मीटर, बिल्ट अप सम्पत्ति नं. एक्स/3470 का भाग, खसरा नं. 248/1 में से, न्यू जैन मार्केट	रु. 4.92 लाख	11.00 बजे पूर्वा.	श्री सुरेन्द्र सिंह
	पताः /3470, बेसमेंट, न्यू जैन मार्केट, शांति मोहल्ला, गांधी नगर, दिल्ली–110031 श्री आशीष शर्मा प्रोपराइटर) पताः डी–299, यूजीएफ, आनंद विहार, नई दिल्ली–110095।	तिथि तक भावी ब्याज, अन्य प्रभार तथा व्यय	रघुबरपुरा नं. 2, गांधी नगर, गांव सीलमपुर के क्षेत्र में, इलाका शाहदरा दिल्ली-110031	(26.10.2022) ₹. 25000/-	से 04.00 बजे अप.	(मो. नं. 9368162196) अधिकृत प्राधिकारी सर्किल सस्त्र ईस्ट
	श्री आनंद शर्मा (गारंटर) पताः 88, गली 1, शेंकर नगर, कृष्णा नगर, दिल्ली-110051,	29.12.2020	में स्थित, आशीष शर्मा तथा आनन्द शर्मा के नाम पर।	V. 23000/	— эч. 	आधकृत प्रााधकारा साकल सस्त्र इस्ट दिल्ली
	साथ ही : डी-299, यूजीएफ, आनंद विहार, नई दिल्ली-110095। श्रीमती जुही शर्मा पत्नी श्री आशीष शर्मा (गारंटर) पताः डी-299, यूजीएफ, आनंद विहार, नई दिल्ली-110095	सांकेतिक				
	श्रीमती बीना शर्मा पत्नी श्री आनंद शर्मा (गारंटर) पताः 88, गली 1, शंकर नगर, कृष्णा नगर, दिल्ली-110051,					
	साथ ही : डी-299, यूजीएफ, आनंद विहार, नई दिल्ली-110095	_				-
8.	शा.का.: शास्त्री नगर, दिल्ली ( 139800 ) मैसर्स नंदी फैब्रिक्स प्रोपराइटर श्री आशीष शर्मा (कर्जदार)	03.10.2020	बिल्ट अप सम्पत्ति नं. एक्स/3470 का बेसमेंट, माप क्षेत्र 75.75 वर्ग गज अर्थात 63.33	रु. 92.00 लाख	27.10.2022	ज्ञात नहीं
	मसस नदा फाब्रक्स प्रापराइटर श्रा आशाष शर्मा (कजदार)   पताः /3470, बेसमेंट, न्यू जैन मार्केट, शांति मोहल्ला, गांधी नगर, दिल्ली-110031	रु. 302.35 लाख + पूर्ण एवं अन्तिम भुगतान की तिथि तक भावी ब्याज, अन्य प्रभार तथा व्यय	वर्ग मीटर, बेसमेंट में एक कॉमन हॉल आधी गैलरी, छत के स्तर तक, खसरा नं. 248/1 में से, आबादी सीलमपुर रोड, रघुबरपुरा नंबर 2, गांधी नगर, गांव सीलमपुर के क्षेत्र में,	रु. 9.20 लाख (26.10.2022)	11.00 बजे पूर्वा. से 04.00 बजे	श्री सुरेन्द्र सिंह (मो. नं.9368162196)
	श्री आशीष शर्मा प्रोपराइटर) पताः डी-299, यूजीएफ, आनंद विहार, नई दिल्ली-110095।		म सं, आबादा सालमपुर राड, रचुबरपुरा नबर 2, गाया नगर, गाय सालमपुर क क्षेत्र मं, इलाका शाहदरा दिल्ली-110031, आशीष शर्मा तथा आनन्द शर्मा के नाम पर।	₹. 25000/-	अप.	अधिकृत प्राधिकारी सर्किल सस्त्र ईस्ट
	श्री आनंद शर्मा (गारंटर) पताः 88, गली 1, शंकर नगर, कृष्णा नगर, दिल्ली-110051, साथ ही : डी-299, युजीएफ, आनंद विहार, नई दिल्ली-110095।	29.12.2020				दिल्ली
	श्रीमती जूही शर्मा पत्नी श्री आशीष शर्मा (गारंटर) पताः डी-299, यूजीएफ, आनंद विहार, नई दिल्ली-110095	सांकेतिक				
	श्रीमती बीना शर्मा पत्नी श्री आनंद शर्मा (गारंटर) पताः 88, गली 1, शंकर नगर, कृष्णा नगर, दिल्ली-110051, साथ ही : डी-299, यूजीएफ, आनंद विहार, नई दिल्ली-110095					
0	साथ हा : डा-299, यूजाएफ, आनंद विहार, नई दिल्ली-110095 शा.का.: शास्त्री नगर, दिल्ली ( 139800 )	03.10.2020	बिल्ट अप सम्पत्ति नं. एक्स/3470 का बेसमेंट, माप क्षेत्र 57.67 वर्ग गज, बेसमेंट में एक	रु. 70.06 लाख	27.10.2022	ज्ञात नहीं
9.	शा.का.: शास्त्रा नगर, ।दल्ला (139800) मैसर्स नंदी फैब्रिक्स प्रोपराइटर श्री आशीष शर्मा (कर्जदार)	रु. 302.35 लाख + पूर्ण एवं अन्तिम भुगतान की	विल्ट अप सम्पत्ति न. एक्स/34/0 की बसमट, मीप क्षत्र 5/.6/ वर्ग गर्ज, बसमट में एक कमरा, छत के स्तर तक, खसरा नं. 248/1 में से, आबादी सीलमपुर रोड, रघुबरपुरा नंबर	रु. 7.01 लाख	11.00 बजे पूर्वा.	श्री सुरेन्द्र सिंह
	पताः /3470, बेसमेंट, न्यू जैन मार्केट, शांति मोहल्ला, गांधी नगर, दिल्ली-110031	तिथि तक भावी ब्याज, अन्य प्रभार तथा व्यय	2, गांधी नगर, गांव सीलमपुर के क्षेत्र में, इलाका शाहदरा दिल्ली-110031, आशीष शर्मा		से 04.00 बजे	(मो. नं. 9368162196)
	श्री आशीष शर्मा प्रोपराइटर) पताः डी-299, यूजीएफ, आनंद विहार, नई दिल्ली-110095। श्री आनंद शर्मा (गारंटर) पताः 88, गली 1, शंकर नगर, कृष्णा नगर, दिल्ली-110051,	29.12.2020	के नाम पर।	रु. 25000/−	अप.	अधिकृत प्राधिकारी सर्किल सस्त्र ईस्ट
	साथ ही : डी-299, यूजीएफ, आनंद विहार, नई दिल्ली-110095।	29.12.2020 सांकेतिक				दिल्ली
	श्रीमती जूही शर्मा पत्नी श्री आशीष शर्मा (गारंटर) पताः डी-299, यूजीएफ, आनंद विहार, नई दिल्ली-110095					
	श्रीमती बीना शर्मा पत्नी श्री आनंद शर्मा (गारंटर) पताः 88, गली 1, शंकर नगर, कृष्णा नगर, दिल्ली-110051, साथ ही : डी-299, यूजीएफ, आनंद विहार, नई दिल्ली-110095					
10.	शा.का.: शास्त्री नगर (139800)	03.10.2020	निजी दुकान नं. सी-71 तथा सी-71ए में दो दुकानें, अब भूतल पर एक दुकान के रूप में,	<b>হ. 54.46 লা</b> ख	27.10.2022	ज्ञात नहीं
	मैसर्स गणपति टेक्सटाइल्स प्रोप. श्री आनंद शर्मा (कर्जदार)	रु. 310.98 लाख + पूर्ण एवं अन्तिम भुगतान की	छत के स्तर तक, माप क्षेत्रफल 18.15 वर्ग गज अर्थात 15.17 वर्ग मीटर, बिल्ट अप		11.00 बजे पूर्वा.	श्री सुरेन्द्र सिंह
	पताः एक्स/3470, बेसमेंट, न्यू जैन मार्केट, शांति मोहल्ला, गांधी नगर, दिल्ली-110031 श्री आनंद शर्मा (प्रोपराइटर) पताः 88, गली 1, शंकर नगर, कृष्णा नगर, दिल्ली-110051,	तिथि तक भावी ब्याज, अन्य प्रभार तथा व्यय	सम्पत्ति नं. एक्स/3470 का हिस्सा, खसरा नं. 248/1 में से, न्यू जैन मार्केट, रघुबरपुरा नंबर		से 04.00 बजे अप.	(मो. नं. 9368162196)
	साथ ही: डी-299, यूजीएफ, आनंद विहार, नई दिल्ली-110095	29.12.2020	2, गांधी नगर, गांव सीलमपुर के क्षेत्र में, इलाका शाहदरा दिल्ली-110031, सुशीला शर्मा के नाम पर।	V. 23000/-	""	अधिकृत प्राधिकारी सर्किल सस्त्र ईस्ट दिल्ली
	श्री आशीष शर्मा (गारंटर सह बंधककर्ता) पताः डी–299, युजीएफ, आनंद विहार, नई दिल्ली–110095।	सांकेतिक				
11	शा.का.: शास्त्री नगर (139800)	03.10.2020	बिल्ट अप सम्पत्ति नं. एक्स/3470 का बेसमेंट, माप क्षेत्र 57.67 वर्ग गज यानी 48.22 वर्ग	रु. 70.00 लाख	27.10.2022	ज्ञात नहीं
11.	मैसर्स गणपति टेक्सटाइल्स प्रोप. श्री आनंद शर्मा (कर्जदार)	रु. 310.98 लाख + पूर्ण एवं अन्तिम भुगतान की	मीटर, बेसमेंट में एक कमरा, छत के स्तर तक, खसरा नं. 248/1 में से, आबादी सीलमपुर	रु. 7.00 लाख	11.00 बजे पूर्वा.	श्री सुरेन्द्र सिंह
	पताः एक्स/3470, बेसमेंट, न्यू जैन मार्केट, शांति मोहल्ला, गांधी नगर, दिल्ली-110031	तिथि तक भावी ब्याज, अन्य प्रभार तथा व्यय	रोड, रघुबरपुरा नंबर 2, गांधी नगर, गांव सीलमपुर के क्षेत्र में, इलाका शाहदरा दिल्ली-	(26.10.2022)	से 04.00 बजे अप.	(मो. नं.9368162196)
	श्री आनंद शर्मा (प्रोपराइटर) पताः 88, गली 1, शंकर नगर, कृष्णा नगर, दिल्ली-110051, साथ हीः डी-299, यूजीएफ, आनंद विहार, नई दिल्ली-110095	29.12.2020	110031, आनन्द शर्मा के नाम पर।	रु. 25000/−	ું અપ.	अधिकृत प्राधिकारी सर्किल सस्त्र ईस्ट दिल्ली
	श्री आशीष शर्मा (गारंटर सह बंधककर्ता) पताः डी-299, यूजीएफ, आनंद विहार, नई दिल्ली-110095	सांकेतिक				14//11
2	ਰਿਕਾਰੀ ਕੇ ਸੰਦਿਸ਼ਤ ਸਿਰਸ ਸਕੂੰ ਅਤੇ				-	

दिनांक : 08.09.2022 स्थान : नई दिल्ली

ई-नीलामी बिक्री के संक्षिप्त नियम एवं शर्तें : बिक्री प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 में निर्धारित नियम एवं शर्तों तथा आगे निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :

1. सम्पत्तियों की बिक्री ''जहाँ है जैसे है'', ''जो है वही है'' तथा ''जो कुछ भी है वहीं है'' आधार पर की जा रही है।

2. यहाँ ऊपर अनुसूची में निर्दिष्ट प्रतिभूत आस्तियों के विवरण अधिकृत प्राधिकारी की सर्वोत्तम सूचना के आधार पर बताये गये हैं, किन्तु अधिकृत प्राधिकारी इस उद्घोषणा में किसी त्रुटि, गलतबयानी अथवा विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

3. बिक्री वेबसाइट https://www.mstcecommerce.com पर प्रावधानित ई-नीलामी प्लेटफार्म के माध्यम से नीलानी की उपर्युक्त तिथि एवं समय तक होगी।

4. बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया www.ibapi.in, www.tenders.gov.in,www.mstcecommerce.com, https://eprocure.gov.in/epublish/app. देखें।

सरफैसी अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) के तहत सांविधिक बिक्री सूचना

नई दिल्ली

अधिकृत प्राधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक